

2.50 लाख रु. के नकली नोटों के साथ गिरोह पकड़ा

Shivpuri News - 100-100 के 3 नोट पकड़ने के बाद की गई पुलिस की पड़ताल में इन्हें बनाने वाला गिरोह ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपियों के...

Hindi News | Mp | Shivpuri
Shivpuri News mp news 250 lakhs gang caught with fake notes
Feb 27, 2019, 05:00 AM IST

100-100 के 3 नोट पकड़ने के बाद की गई पुलिस की पड़ताल में इन्हें बनाने वाला गिरोह ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपियों के पास से 2.50 लाख के नकली नोट मिले हैं। इसके अलावा इसे बनाने की उपयोग होने वाला प्रिंटर, कटर, रंगीन टेप आदि भी जब्त की गई है। यह पुलिस के लिए बड़ी सफलता है, क्योंकि गिरोह नए नकली नोट बना रहा था। इनके पकड़े जाने से दिल्ली तक फैले नेटवर्क का भी खुलासा हो सकता है। दरअसल यह खुलासा 16 फरवरी को म्याना में नकली नोट से शराब खरीदने पहुंचे युवाओं के पकड़े जाने के बाद हुआ है। सिर्फ तीन 100-100 के नोट के आधार पर टीआई राकेश गुप्ता एवं उनकी टीम ने आरोपी नवल, सोनू, मुंशीलाल एवं लाखन को पकड़ा था। इसके बाद जांच की तो लिंक से लिंक जुड़ती चली गई। पुलिस को आरोपियों के अन्य साथी टकनेरा निवासी जगभान यादव, शिवपुरी निवासी जयपाल यादव, अशोकनगर निवास कल्याण सिंह यादव एवं शिवपुरी के ही अतुल यादव को पकड़ा। इनके पास से 50, 500 और 2 हजार के नकली नोट मिले। यानी दो बार की कार्रवाई में कुल 8 हजार के नोट मिले थे। इसके बाद भी पुलिस जांच में जुटी रही। इसका नतीजा यह रहा कि पूरा गिरोह ही हत्थे चढ़ गया।

छोटे से गांव मावन में बना रहा था युवक नोट दिल्ली तक था संपर्क : एसडीओपी राजेंद्र रघुवंशी ने बताया कि 25 फरवरी को फिर सूचना मिली कि नकली नोट बनाने वाला शिवराज कुशवाह मावन में रहता है। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा को सूचना दी गई, उन्होंने टीआई राकेश गुप्ता, सायबर सेल प्रभारी मसीह खान, हवलदार सिंह, वासूदेव एवं अन्य बल को सक्रिय गया। पता चला कि आरोपी अपने साथियों के साथ निहाल देवी दर्शन करने जा रहा है। उसे रास्ते में पकड़ा एवं अन्य साथी मावन निवासी भीमसेन शाक्य, शिवपुरी निवासी दीपक कोली एवं गोली निवासी अशोकनगर को पकड़ा। इनके पास से 9500 नकली नोट मिले।

पकड़े जाने के बाद घर से नोट बनाने के उपकरण जब्त

आरोपी के पकड़े जाने के बाद उसके मावन स्थित घर से नोट बनाने में उपयोग होने वाले उपकरण जब्त किए। एक रंगीन प्रिंटर, फोटो सीट पर छपे हुए 500, 200, 100 और 50 के नकली नोट मिले। जब पुलिस ने गिने थे यह 2.50 लाख थे। आरोपी प्रिंटर से नोट हूबहू छाप लेता था। इसके बाद इनकी कटिंग करता था। इसके बाद रंगीन टेब लगाकर असली नोट में दिखाई देने वाला तार बनाता था। ताकि किसी को शक न हो।

Source: <https://www.bhaskar.com/mp/shivpuri/news/mp-news-250-lakhs-gang-caught-with-fake-notes-050031-4001167.html>